



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 34] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 21—अगस्त 27, 2004 (श्रावण 30, 1926)
No. 34] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 21—AUGUST 27, 2004 (SARVANA 30, 1926)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]
[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by
Statutory Bodies]

भारतीय रिज़र्व बैंक
केंद्रीय कार्यालय
बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग
मुंबई-400 005, दिनांक 16 अगस्त 2004

सं. पीएसबीएस.बीसी. 30/16.01.137/2004-05--भारतीय रिज़र्व बैंक
अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उप धारा (6) के खंड
(क) के अनुसरण में भारतीय रिज़र्व बैंक इसके द्वारा उक्त
अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में निम्नलिखित बैंक के समावेश का निदेश देता
है।

येस बैंक लिमिटेड
नेहरु सेंटर, 9 वीं मंज़िल, डिस्कवरी ऑफ इंडिया,
डॉ. एनी बेसंट मार्ग, वरली,
मुंबई-400 018

उषा थोरात
कार्यपालक निदेशक

भारतीय स्टेट बैंक
केंद्रीय कार्यालय
मुंबई-400 021, दिनांक 17 अगस्त 2004

सूचना

भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम की धारा 19 (ग) के प्रावधानों के
अंतर्गत केंद्रीय बोर्ड के लिए दो निदेशकों के चुनाव हेतु मंगलवार दिनांक 31

अगस्त 2004 को नेहरु सेंटर, डॉ. एनी बेसंट रोड, वरली, मुंबई-400 018
(महाराष्ट्र) में प्रातः 10.00 बजे आयोजित होने वाली शेयरधारकों की महत्सभा
स्टेट बैंक सामान्य विनियमों के विनियम 21 (1) के अनुसार दिनांक 19 जुलाई
2004 को जारी और भारत सरकार के 24 जुलाई 2004 के गजट में प्रकाशित
अधिसूचना के संदर्भ में एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दो रिक्त स्थानों के
लिए वैध रूप से नामांकित प्रत्याशियों के नाम और पते निम्नलिखित हैं :

1. श्री अजय जी. पीरामल
अध्यक्ष, पीरामल एंटरप्राइजेज,
डॉ. आंबेडकर रोड, परेल,
मुंबई-400 012
2. डॉ. आई. जी. पटेल
12 अमी सोसायटी,
दिवालीपाडा, ओल्ड पादरा रोड,
बडौदा-390 015
3. श्री नालम विस्वेस्वर राव
1-1-550/ए मुशीराबाद
हैदराबाद-500 020

चन्दन भट्टाचार्य
प्रबंध निदेशक

ध्यान दें : यदि कोई उम्मीदवार अपना नामांकन वापस लेना चाहे, तो उन्हें इस आशय
की लिखित सूचना प्रबंध निदेशक को देनी चाहिए जो मतदान आरंभ
होने से पूर्व उन्हें प्राप्त हो जाए।

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

मुंबई-21, दिनांक 26 जुलाई 2004

सं. - बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का निदेशक मंडल, भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करके तथा केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 1995 में पुनः संशोधन हेतु एतद्वारा, निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :

1. (1) ये विनियम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2004 कहलायेंगे.
- (2) ये सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे.
2. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 1995 में,
 - (क) विनियम 2 के उप-विनियम (घ) के खंड (ख) में, उप खंड (iii) के बाद निम्नलिखित उप-खंड शामिल किया जाएगा; अर्थात्

"(iv) 1960 = 100 श्रृंखला में औद्योगिक कामगारों के लिए अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में सूचकांक के 1148 अंकों तक परिकलित महंगाई भत्ता;"


- (ख) विनियम 41 में, उप-विनियम (6) के लिए, निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

"(6) जो आवेदक अधिवर्षिता पेंशन या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पेंशन या समयपूर्व सेवानिवृत्ति पेंशन या अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन या अशक्त पेंशन या अनुकंपा भत्ता के लिए प्राधिकृत है, वह इन विनियमों के अंतर्गत अपनी पेंशन के एक हिस्से को सरांशीकृत करने का पात्र होगा;

परंतु, 1.7.2003 को या से, जिस आवेदक के मामले में पेंशन का संराशीकृत मूल्य उसकी सेवानिवृत्ति की तारीख के अगले दिन या संराशीकरण पूर्ण होने की तारीख से देय होता है, संराशीकरण के कारण पेंशन की रकम में कमी उसके प्रारंभ की तारीख से ही लागू होगी. तथापि, जहाँ संराशीकृत पेंशन की रकम का भुगतान, यथास्थिति, सेवानिवृत्ति की तारीख से पहले माह या संराशीकरण पूर्ण होने की तारीख से पहले माह के भीतर नहीं होता है वहां मासिक पेंशन और संराशीकृत पेंशन के अंतर का भुगतान, यथास्थिति, सेवानिवृत्ति की तारीख के अगले दिन से या संराशीकरण पूर्ण होने की तारीख से, जिस तारीख को संराशीकृत पेंशन को प्रदत्त माना गया है, उससे पिछली तारीख तक किया जाएगा."

पाद टिप्पणी : मूल विनियम भारत के राजपत्र में दिनांक 22.09.1995 को (असाधारण) प्रकाशित हुए थे तथा परवर्ती संशोधन राजपत्र में निम्नानुसार प्रकाशित हुए :

<u>अधिसूचना संख्या</u>	<u>दिनांक</u>	
-	02.01.1999	राजपत्र जारी क्र.9 दिनांक 27.02.1999
3	22.05.2002	राजपत्र जारी क्र. 28 दिनांक 13.07.2002
4	31.12.2002	राजपत्र जारी क्र. 4 दिनांक 25.01.2003


(के.एस.नारायण)
महा प्रबंधक (भासंप्र)

भारतीय चार्टर प्राप्त लेखाकार संस्थान

नई दिल्ली-110002, दिनांक 04 अगस्त 2004

नं०13-सी.ए./परीक्षा/आई.एस.ए./स./2004-चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स रेगुलेशन 1988 [जो अधिसूचना संख्या-1-सी.ए.(7)/59/2001 दिनांक 28 सितम्बर, 2001 के द्वारा संशोधित किया गया] के नियम-7, अनुसूची 'एफ' के अनुसार दि कॉंसिल ऑफ दि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इंडिया को अधिसूचना जारी करने में प्रसन्नता है कि इनफोरमेशन सिस्टम ऑडिट कोर्स की निर्धारण परीक्षा (असेसमेन्ट टेस्ट) दिनांक 25.09.2004 को सत्र 8 बजे से 12 बजे दोपहर, को निम्नलिखित केन्द्रों पर होगी। बशर्ते कि प्रत्येक केन्द्र में परीक्षा के लिए पर्याप्त संख्या में परीक्षार्थी निवेदन करते हैं।

परीक्षा केन्द्र:-

1. आगरा	2. अहमदाबाद	3. इलाहाबाद	4. अमृतसर	5. औरंगाबाद
6. बैंगलोर	7. भठिन्डा	8. भीलवाड़ा	9. बीकानेर	10. भोपाल
11. भुवनेश्वर	12. चंडीगढ़	13. चेन्नई	14. कोयम्बटूर	15. कटक
16. ईरनाकुलम	17. गाजियाबाद	18. गोवा	19. गुवाहाटी	20. ग्वालियर
21. हिसार	22. हुबली	23. हैदराबाद	24. इंदौर	25. जबलपुर
26. जयपुर	27. जलंगवा	28. जोधपुर	29. कानपुर	30. कोलकाता
31. कोल्हापुर	32. लखनऊ	33. लुधियाना	34. मदुरई	35. मुम्बई
36. नागपुर	37. नईदिल्ली	38. पानीपत	39. पटना	40. पूना
41. रायपुर	42. राजकोट	43. रांची	44. राउरकेला	45. सेलम
46. सूरत	47. उदयपुर	48. बड़ोदरा	49. वाराणसी	50. विजयवाड़ा
51. विशाखापटनम	52. यमुना नगर			

परिषद अपने विशेषाधिकार के अन्तर्गत किसी भी परीक्षा केन्द्र को किसी भी समय बिना कोई कारण दिए रद्द कर सकती है।

यह परीक्षा इंस्टीट्यूट के केवल पात्र सदस्य जो कि पहले से ही पंजीकृत हैं, के लिए है।

इस परीक्षा के लिए परीक्षा शुल्क 1,000/- रुपये (एक हजार रुपये मात्र) है।

परीक्षा शुल्क की राशि का भुगतान बैंक के डिमांड ड्रॉफ्ट द्वारा होना चाहिए। आवेदन पत्र उपयुक्त शुल्क के डिमांड ड्रॉफ्ट के साथ इस प्रकार भेजा जाना चाहिए कि वह संयुक्त सचिव (परीक्षा) के कार्यालय में दिनांक 01.09.2004 तक पहुँच जाए। दिनांक 01.09.2004 के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों को स्वीकार नहीं किया जायेगा।

इस परीक्षा के लिए आवेदन निर्धारित आवेदन पत्र पर ही किया जाना चाहिए जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इंडिया के संयुक्त सचिव (परीक्षा) के नई दिल्ली स्थित कार्यालय से 25/-रुपये प्रति आवेदन पत्र भुगतान करने पर मिल सकता है। आवेदन पत्र इंस्टीट्यूट के रीजनल और ब्रांचों के कार्यालयों में भी उपलब्ध है और नकद भुगतान करने पर 13 अगस्त 2004 से प्राप्त किये जा सकते हैं।

जी. सोमाशेखर

(जी. सोमाशेखर)

संयुक्त सचिव(परीक्षा)सी.सी.

दिनांक 05 अगस्त 2004

नं० 13 सी.ए. (परीक्षा) नवम्बर-2004 इंस्टीट्यूट की अधिसूचना संख्या 13-सी.ए. (परीक्षा) / एन / 2004 दिनांक 19 जुलाई 2004 के आंशिक विस्तार के तहत सर्वसाधारण को यह सूचित किया जाता है कि दि कॉसिल ऑफ दि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इंडिया ने पोस्ट क्वालिफिकेशन पाठ्यक्रमों - मैनेजमेंट एकाउन्टेन्सी पाठ्यक्रम (भाग प्रथम) एवं इन्स्युरेन्स एवं रिस्क मैनेजमेंट (आई.आर.एम.) की परीक्षाएं पुनः निर्धारित की हैं और अब ये परीक्षाएं निम्नलिखित तिथियों पर होंगी ।

मैनेजमेंट एकाउन्टेन्सी पाठ्यक्रम (भाग-प्रथम) परीक्षा :

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स रेगुलेशन 1988 के अनुसूची "सी" के अन्तर्गत:

ग्रुप - प्रथम - 5 और 6 नवम्बर, 2004

ग्रुप - द्वितीय - 8 और 9 नवम्बर, 2004

(प्रातः कालीन सत्र - 8 बजे से 11 बजे तक) भारतीय समयानुसार

इन्स्युरेन्स एवं रिस्क मैनेजमेंट (आई.आर.एम.) परीक्षा:

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स रेगुलेशन 1988 की अनुसूची "जी" के अन्तर्गत:

माड्यूल 1 से 4: 5, 6, 8 और 9 नवम्बर 2004

(प्रातः कालीन सत्र - 8 बजे से 11 बजे तक) भारतीय समयानुसार

परीक्षा केन्द्र तथा अन्य शर्तें, अन्य सभी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स परीक्षाओं-व्यावसायिक शिक्षा परीक्षा-(प्रथम), व्यावसायिक शिक्षा परीक्षा (द्वितीय) एवं फाईनल की परीक्षाओं के लिए पूर्व घोषित ही रहेंगी ।

जी-सोमाशेखर

(जी० सोमाशेखर)

संयुक्त सचिव (परीक्षा) सी.सी.

कोलकाता-700 071, दिनांक 3 अगस्त 2004

(चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स)

न. 3 ईसीए/4/1/2003-2004 चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम 1988 के विनियम 18 के अनुसरण में (एतद) द्वारा टाह सुचित किया जाता है कि चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार अधिनियम 1949 को धारा 20 उपधारा (1) (क) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद् ने अपने सदस्यता रजिस्टर में से निम्नलिखित सदस्य का नाम उसके मृत्यु के कारण उसके आगे दी गयी तिथि से हटा दिया है।

क्रम संख्या	सदस्यता संख्या	नाम एवं पता	दिनांक
1.	001228	श्री हरि प्रसाद शर्मा एच.पी. शर्मा एन्ड कम्पनी टेम्पल चेम्बर ६, ओल्ड पोस्ट आफिस स्ट्रीट, कोलकाता-७००००९	14/07/2003
2.	001707	श्री संजल कुमार गुप्ता ईई-२१४ सेक्टर-१ सेल्ट लेक, कोलकाता-७०००६४	17/04/2003
3.	003042	श्री अपुरबा कुष्णा नन्दी २४, आर एन मुखर्जी रोड कोलकाता-७००००९	15/04/2003
4.	003111	श्री हिम्मत सिंह जैन एच.एस. जैन एन्ड कम्पनी इन्डिया हाऊस, ३ तल्ला, ६९, गणेश चन्द एवन्गु कोलकाता-७०००९३	25/02/2003
5.	004204	श्री अर्दी बाबूजी राबदी १४ए, राजा सन्तोष रोड कोलकाता-७०००२७	25/07/2002
6.	004456	श्री दीनाबन्धु पाटरा १०-डी. अभीनास सारनी, चन्दमरीदगा बनकुरा-७२२१०९	19/07/2003
7.	005602	श्री सुभार प्रमोद राय १३/५, सुवीनहो स्ट्रीट, फ्लोट नं० ६ कोलकाता-७०००१९	06/06/2003

8.	005674	श्री नरेन्द्र चन्द्र चक्रवर्ती १८ बी एन सारनी, मैटपाड़ा पोस्ट : नौनाचन्दनपुकर जिला : २४ परगना (नार्थ), बैरकपुर-७४३१०२	12/04/2003
9.	007856	श्री काली पाखा मेसर्स के.पी. दास एन्ड कम्पनी ७, ओल्ड ओएसटी आफिस स्ट्रीट फास्ट फ्लोर कोलकाता-७००००९	26/11/2002
10.	008545	श्री प्रहबीर पासवैधारी सी-४५५ (आर्लैंड नं० १६२/१२९) लेख गार्डन गराऊड फ्लोर कोलकाता-७०००४५	20/05/2003
11.	009932	श्री सिसिर कुमार साहा मेसर्स के.सी.आयर एन्ड कम्पनी ९, सयद अमीर अली एवन्गु ४ तल्ला, फ्लोट नं० २ कोलकाता-७०००१७	07/08/2003
12.	013212	श्री मुखर्जी जीतेन्द्र नाथ जे.एन. मुखर्जी एन्ड कम्पनी पी-१२/१६९, पोस्ट-नदिया कालायाना-७४१२३५	24/06/2003
13.	017806	श्री अचीत्य कुमार मायती मेसर्स ए. के. मायती एन्ड कम्पनी, चर्च रोड, जिला-मिदनापुर मिदनापुर-७२११०९	19/03/2003
14.	072486	श्री अलोक पात ११, बड़े रायपुर रोड कोलकाता-७०००३२	12/03/2003

अशोक इलदिया
सचिव

चेन्नई-600 034, दिनांक 4 अगस्त 2004

(चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)

3-एस.सी.ए. (4)/2/2003-2004 :- चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम 1938 के विनियम 18 के अनुसरण में एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार अधिनियम 1949 की धारा 20 की उपधारा (1) के खण्ड (अ) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्था परिषद ने अपने सदस्यता रजिस्टर में से मृत्यु हो जाने के कारण निम्नलिखित सदस्यों के नाम उनके आगे दी गई तिथि से हटा दिया गया है।

क्र० सं०	सदस्यता संख्या	नाम एवं पता	दिनांक
1.	001979	श्री राघवन गोपालाचारी ए-203 यूनाइटेड एवेन्यू साऊथ एण्ड अपार्टमेंट्स, 7-1-29 अमेरपेट, हैदराबाद-500016	18/10/2002
2.	005298	श्री सूर्याप्रकाश राव के ए पी फ्लैट न. 303, साकेत अपार्टमेंट्स, शिवम रोड, न्यू नाल्लाकुन्ता, हैदराबाद-500044	29/03/2003
3.	006508	श्री वारदाचारी एस 'श्रीनिकेतन', 43 पेरूमल सन्नाधी, नागापट्टीनाम-611001	06/11/2002

4.	010152	श्री सिवारासन ए के एफ-8, टीएनएचबी फ्लैट्स, 180 ल्यूज चर्च रोड, माइलापोर, चेन्नई-600004	24/03/2003
5.	018807	श्री राजन सी प्रेसीडेन्ट बन्नारी अम्मान एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, न. 1 वॉनस कालोनी 2 ND स्ट्रीट, अलवरपेट, चेन्नई-600018	24/09/2002
6.	021659	श्री श्रीशैव ए मौ हाऊस, 6 सर्विस रोड, दोमलूर, बेंगलोर-560071	03/05/2001
7.	029179	श्री सुरेश बी वी पहली मंजिल, 'एल' ब्लॉक, यूनिटी बिल्डिंग्स, जे सी रोड, बेंगलोर-560002	24/01/2003
8.	029459	श्री जीवनदास हेगड़े के 125 कॉमर्शियल स्ट्रीट बेंगलोर-560001	28/11/2001
9.	201994	श्री समपथ कुमार एस 3 दूसरी मंजिल, विश्वेष्टराय बिल्डिंग, के आर सर्किल, मैसूर-570001	05/01/2003
10.	209972	श्री हरी बाबू ए वी एस 15/268 वृन्दावनाम, ओप. थिक्काना टेलिफोन भवन, नेल्लोर-524001	20/06/2002

अशोक हल्दिया
(सचिव)

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनांक 16 मार्च 2004

संख्या: एन-15/13/1/4/2001-यो. एंव वि.--कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम-1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा-46 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक महोदय ने 01 मार्च, 2004 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम 95-क तथा आन्ध्र प्रदेश कर्मचारी राज्य बीमा नियम-1955 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ आन्ध्र प्रदेश राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किए जाएंगे, अर्थात् :-

“विशाखापटनम जिले के गाजुवाका मंडल में स्थित दुव्वाडा और अगनमपूडी राजस्व गांव।”

एस. थामस
निदेशक (यो.एंव वि.)

श्रम मंत्रालय

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

मुख्यालय

नई दिल्ली-110066, दिनांक 28 जुलाई 2004

सं. 2/1959/डी.एल.आई./एक्जाम/89-भाग-1/584--जहां मै. टेलको लि. (यय मोटर्स लि.) जमशेदपुर, खाता संख्या, बी. आर./05 ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2 (क) के अंतर्गत छूट विस्तार के लिए आवेदन किया है जिसे इसमें इसके पश्चात् अधिनियम कहा गया है।

चूंकि मैं, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किये बिना जीवन बीमा के रूप में उक्त स्थापना की लाईफ कवर स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जोकि ऐसे कर्मचारियों के कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 के अन्तर्गत स्कीमार्थ लाभों में अधिक अनुकूल है जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा श्रम मंत्रालय भारत सरकार/केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त की अधिसूचना सं.2/1959/डी.एल.आई./एक्जाम/89-भाग-1/4467 दिनांक 11.10.99 के अनुसरण में तथा संलग्न अनुसूची में निर्धारित शर्तों के रहते हुए, मै. एच. डब्ल्यू. टी. स्येम उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के संचालन के उक्त स्थापना को और 3 वर्षों की अवधि के लिए छूट प्रदान करता हूं, दिनांक 01.03.2002 से 28.02.2005 तक लागू होगा जिसमें यह तिथि 28.02.2005 भी शामिल है।

अनुसूची

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3-क) के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निर्देश करें।

3. लाईफ कवर के स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, प्रभार संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदन लाईफ कवर स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब उसमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहु संख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसकी स्थापना में नियोजित किया जाता है तो नियोजक लाईफ कवर स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों का उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं, तो नियोजक लाईफ कवर स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा, जो कि कर्मचारियों के लिए लाईफ कवर स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है।

7. लाईफ कवर स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती तब तक उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिश/नाम निर्देशितों को प्रतिकार के रूप में दोनों राशियों के अन्तर के बराबर राशि का संदेय करेगा।

8. लाईफ कवर स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन के कर्मचारी के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का व्यक्तिगत अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी की उस लाईफ कवर स्कीम के, जिसे स्थापना अपना चुकी है अधीन रह जाता है या इस स्कीम के आधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी राशि से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है।

10. किसी व्यक्ति क्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तर दायित्व नियोजक पर होगा।

11. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के आधीन आने वाले किसी की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम/निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा।

एस. आर. जोशी
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त

RESERVE BANK OF INDIA
CENTRAL OFFICE
(DEPARTMENT OF BANKING OPERATIONS & DEVELOPMENT)

Mumbai-400005, the 16th August 2004

No. PSBS.BC 30/16.01.137/2004-05.—In pursuance of clause (a) of sub-section (6) of Section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Reserve Bank of India hereby directs inclusion in the Second Schedule to the said Act of the following bank, namely:

Yes Bank Limited,
Nehru Centre, 9th Floor, Discovery of India,
Dr. A. B. Road, Worli,
Mumbai-400018.

USHA THORAT
Executive Director

STATE BANK OF INDIA
CENTRAL OFFICE
Mumbai-400021, the 17th August 2004

NOTICE

With reference to the Notice dated the 19th July, 2004 issued in terms of regulation 21(1) of the State Bank of India General Regulations, published in the Gazette of India of the 24th July, 2004 regarding the holding of the General Meeting of the Shareholders of the Bank at Nehru Centre, Dr. Annie Besant Road, Worli, Mumbai-400018 (Maharashtra), at 10.00 A.M., on Tuesday, the 31st August, 2004, for election of two Directors on the Central Board under the provisions of Section 19 (c) of the State Bank of India Act, notice is hereby given that the following are the names and addresses of the candidates validly nominated for the two vacancies :—

1. Shri Ajay G. Piramal,
Chairman, Piramal Enterprises,
Dr. Ambedkar Road, Parel, Mumbai-400012
2. Dr. I. G. Patel,
12, Arni Society, Diwalipara, Old Padra Road,
Baroda-390015.
1. Shri Nalam Visweswara Rao,
1-1-550/A, Musheerabad, Hyderabad-500020.

CHANDAN BHATTACHARYA
Managing Director & GE (CB)

N.B. Should any of the candidates wish to withdraw his/her nomination, such withdrawal must be made in writing addressed to The Managing Director & GE(CB) and received before the commencement of the voting for the election.

UNION BANK OF INDIA

Mumbai-21, the 26th July 2004

No. - In exercise of the powers, conferred by section 19 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970), the Board of Directors of Union Bank of India in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Union Bank of India (Employees') pension Regulations 1995 namely -

- 1 (1) These Regulations may be called Union Bank of India (Employees') Pension (Amendment) Regulations 2004
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2 In the Union Bank of India (Employees') Pension Regulations, 1995,
 - (a) In clause (b) to sub-regulation (s) of regulation 2, after sub clause (iii) the following sub-clause shall be inserted namely -
 - "(iv) Dearness allowance calculated upto index number 1148 points in the All India Average Consumer Price Index for industrial workers in the series 1960=100"

- (b) In regulation 41, for sub-regulation (6), the following sub-regulation shall be substituted namely -

"(6) An applicant who is authorised a superannuation pension or voluntary retirement pension or premature retirement pension or compulsory retirement pension or invalid pension or compassionate allowance shall be eligible to commute a fraction of his pension under these regulations.

Provided that on and from 01.07.2003 in case of an applicant in whose case the commuted value of pension becomes payable on the day following the date of his retirement or from the date from which the commutation becomes absolute, the reduction in the amount of pension on account of commutation shall become operative from its inception. Where, however, payment of commuted value of pension could not be made within the first month after the date of retirement or within the first month after the date when the commutation becomes absolute as the case may be, the difference between the monthly pension and the commuted pension shall be paid for the period between the date following the date of retirement or the date when the commutation becomes absolute, as the case may be, and the date preceding the date on which commuted value of pension is deemed to have been paid"

Foot Note The Principal Regulations were published in the Gazette of India on 29.9.1995 and subsequent amendments were published in the gazette as under -

Notification No	Date	
-	02.01.1999	Gazette issue no. 9 dated 27.02.1999
3	22.05.2002	Gazette issue no.28 dated 13.07.2002
4	31.12.2002	Gazette issue no. 4 dated 25.01.2003


(K.L. GOPALAKRISHNA)
GENERAL MANAGER (HRM)

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

New Delhi-110002, the 4th August 2004

No. 13-CA (EXAM)/ISA/S/2004: - In pursuance of Rule 7 of Schedule 'F' to Regulation 204 of the Chartered Accountants Regulations, 1988 (as amended vide Notification No. 1-CA(7)/59/2001 dated 28th September, 2001), the Council of the Institute of Chartered Accountants of India is pleased to notify that the Information Systems Audit (ISA) Course Assessment Test will be held on 25th September, 2004 from 8.00 am to 12.00 noon at the following centres provided that sufficient number of candidates offer themselves to appear from each centre :-

EXAMINATION CENTRES:

1. Agra	14. Coimbatore	27. Jalgaon	40. Pune
2. Ahmedabad	15. Cuttack	28. Jodhpur	41. Raipur
3. Allahabad	16. Emakulam	29. Kanpur	42. Rajkot
4. Amritsar	17. Ghaziabad	30. Kolkata	43. Ranchi
5. Aurangabad	18. Goa	31. Kolhapur	44. Rourkela
6. Bangalore	19. Guwahati	32. Lucknow	45. Salem
7. Bathinda	20. Gwalior	33. Ludhiana	46. Surat
8. Bhiwara	21. Hisar	34. Madurai	47. Udaipur
9. Bikaner	22. Hubli	35. Mumbai	48. Vadodara
10. Bhopal	23. Hyderabad	36. Nagpur	49. Varanasi
11. Bhubaneswar	24. Indore	37. New Delhi	50. Vijayawada
12. Chandigarh	25. Jabalpur	38. Panipat	51. Visakhapatnam
13. Chennai	26. Jaipur	39. Patna	52. Yamunanagar

The Council reserves the right to withdraw any centre at any stage without assigning any reason. The above test is open only to eligible Members of the institute who are already registered with the Institute for the said course. The fees payable for the above Assessment Test is Rs. 1000/-.

Payment of fees for the Assessment Test should be made only by Demand Draft. The Demand Draft may be of any Scheduled Bank and should be drawn in favour of the Secretary, The Institute of Chartered Accountants of India, payable at New Delhi only. Application together with the prescribed fee be sent so as to reach the Joint Secretary (Exams) - CC at New Delhi on or before 1st September 2004.

Applications for admission to the Assessment Test is required to be made in the prescribed form which may be obtained from the Joint Secretary (Exams) - CC, the Institute of Chartered Accountants of India, Indraprastha Marg, New Delhi - 110 002 on payment of Rs.25/- per application form. The forms are also available in the Regional and Branch Offices of the Institute and can be obtained there from on cash payment on or from 13th August 2004. Alternatively, the format of application form can be downloaded from the website of the Institute viz. www.icai.org and the cost of the application form of Rs. 25/- can be added to the Assessment Test fee of Rs. 1000/- and the Demand Draft for Rs. 1025/- has to be sent. The last date for receipt of duly filled in application forms is 1st September 2004. The application together with the prescribed fee should be sent by Speed Post/Registered Post to the Joint Secretary (Exams.) -CC, The Institute of Chartered Accountants of India, Indraprastha Marg, New Delhi - 110002. The applications received after 1st September 2004 will not be entertained under any circumstances.


(G. SOMASEKHAR)
JOINT SECRETARY (EXAMS.) - CC

The 5th August 2004

No. 13-CA (EXAM)/N/2004 :- In partial modification of the Institute's Notification No. 13-CA (EXAM)/N/2004 dated 19th July, 2004, it is notified for general information that the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has re-scheduled the Post Qualification Course Examinations in Management Accountancy Course (MAC Part-I) and Insurance and Risk Management (IRM) Course to be held in November, 2004 and the said examinations will now be held on the dates as given below.

MANAGEMENT ACCOUNTANCY COURSE (MAC PART-I) EXAMINATION:

[As per provision contained in Schedule "C" of Chartered Accountants Regulations, 1988]

Group-I : 5th and 6th November, 2004

Group-II : 8th and 9th November, 2004
--

(Morning Session -- 8.00 a.m. to 11.00 a.m.) (IST)

INSURANCE AND RISK MANAGEMENT (IRM) COURSE EXAMINATION:

[As per provisions contained in Schedule "G" of Chartered Accountants Regulations, 1988]

Modules I to IV	5th, 6th, 8th and 9th November, 2004
------------------------	---

(Morning Session -- 8.00 a.m. to 11.00 a.m.) (IST)

The dates, session(s)/timing in respect of all other Examinations viz. Professional Education – I, Professional Education – II and Final Examinations, centres of Examinations and all other details/conditions mentioned in the Notification dated 19th July, 2004 will remain unchanged.


(G. SOMASEKHAR)
JOINT SECRETARY (EXAMS.)-CC

Kolkata-700071, the 3rd August 2004

(Chartered Accountant)

No. 3ECA/4/1/2003-2204 In pursuance of Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified that in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (i) of Section 20 of the Chartered Accountants Act, 1949, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has removed from the Register of Members of this Institute on account of Death with effect from date(s) mentioned against the names of the following members :

S. No.	MRN	Member Name & Address	Removal Dt.
1.	001228	Mr. Sharma Hari Prasad H. P. Sharma & Co. Temple Chambers 6 Old Post Office Street Kolkata - 700001	14/07/2003
2.	001707	Mr. Gupta Sajal Kumar AE-214 Sector-1 Saltlake Kolkata - 700064	17/04/2003
3.	003042	Mr. Nandi Apurba Krishna 24 R N Mukherjee Road Kolkata - 700001	15/04/2003
4.	003111	Mr. Jain Himmat Singh H. S. Jain & Co. India House, 3rd Floor 69 Ganesh Chandra Avenue Kolkata - 700013	25/02/2003
5.	004204	Mr. Rabadia Adh Bapuji 14A Raja Santosh Road Kolkata - 700027	25/07/2002
6.	004456	Mr. Patra Dinabandhu 10-D Abinash Sarani Chandmaridanga Bankura - 722101	19/07/2003
7.	005602	Mr. Ray Subir Prosad 13/5 Swinhoe Street Flat No. 6 Kolkata - 700019	06/06/2003
8.	005674	Mr. Chakrabarti Nirendra Ch. 18 B N Sarani Mathpara P.O. : Nonachandankpur Dist. : 24 Parganas (North) Barrackpore - 743102	12/04/2003
9.	007856	Mr. Das Kali Pada M/s. K. P. Das & Co. 7 Old Post Office Street 1st Floor Kolkata - 700001	26/11/2002
10.	008545	Mr. Palchaudhuri Prabir C-455 (Old No. 162/129) Lake Gardens Ground Floor Kolkata - 700045	20/05/2003
11.	009932	Mr. Saha Sisir Kumar M/s K S Aiyar & Co. 9 Syed Amir Ali Avenue 4th Floor Flat No. 2 Kolkata - 700017	07/08/2003
12.	013212	Mr. Mookherjee Jitendra Nath J. N. Mookherjee & Co. P-12/169 Dist. Nadia Kalyani - 741235	24/06/2003
13.	017806	Mr. Maiti Achintya Kumar M/s A K Maiti & Co. Church Road Dt. Midnapore Midnapore - 721101	19/03/2003
14.	072486	Mr. Paul Aloke 11 Bade Raipur Road Kolkata - 700032	12/03/2003

Ashok Halodia
(ASHOK HALDIA)
Secretary

Chennai-600 034, the 4th August 2004

(Chartered Accountants)

No.3SCA(4)/2/2003-2004 In pursuance of Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified that in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of Section 20 of the Chartered Accountants Act, 1949, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has removed from the Register of Members of this Institute on account of Death with effect from date(s) mentioned against the names of the following members :-

S.No.	MRN	Member Name & Address	Removal Dt.	S.No.	MRN	Member Name & Address	Removal Dt.
1.	001979	Mr. RAGHAVAN GOPALACHARI A-203 UNITED AVENUE SOUTH END APARTMENTS 7-1-29 AMEERPET HYDERABAD-500016	18/10/2002	6	021659	Mr. SHREE SHAW A MAA HOUSE 6 SERVICE ROAD DOMLUR BANGALORE-560071	03/05/2001
2	005298	Mr. SURYAPRAKASA RAO K A P FLAT NO.303 SAKET APARTMENTS SHIVAM ROAD NEW NALLAKUNTA HYDERABAD-500044	29/03/2003	7	029179	Mr. SURESH B V FIRST FLOOR 'L' BLOCK UNITY BUILDINGS J C ROAD BANGALORE-560002	24/01/2003
3	006508	Mr. VARADACHARI S 'SRINIKETAN' 43 PERUMAL SANNADHI NAGAPATTINAM-611001	06/11/2002	8	029459	Mr. JEEVANDAS HEGDE K 125 COMMERCIAL STREET BANGALORE-560001	28/11/2001
4	010152	Mr. SIVARAMAN A K F-8 TNHB FLATS 180 LUZ CHURCH ROAD MYLAPORE CHENNAI-600004	24/03/2003	9	201994	Mr. SAMPATH KUMAR S 3 II FLOOR VISWESHWARIAH BUILDING K R CIRCLE MYSORE-570001	05/01/2003
5	018807	Mr. RAJAN C PRESIDENT BANNARI AMMAN EXPORTS LIMITED NO 1 VENUS COLONY II STREET ALWARPET CHENNAI-600018	24/09/2002	10	209972	Mr. HARI BABU A V S 15/268 BRINDAVANAM OPP THIKKANA TELEPHONE BHAVAN NELLORE-524001	20/06/2002


(ASHOK HALDIA)
SECRETARY

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION'

New Delhi, the 16th March 2004

No. N-15/13/1/4/2001-P&D.—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st March 2004 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Andhra Pradesh Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1955 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Andhra Pradesh namely:—

"The Areas falling within the Revenue Villages of Duvvada and Agnampudi of Gujuwaka Mandal in Visakhapatnam District."

S. THOMAS
Director (P&D)

MINISTRY OF LABOUR

EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANIZATION
(HEAD OFFICE)

New Delhi-110066, the 28th July 2004

No. 2/1959/EDLI/Exempt/89/Pt. 1/584.—Whereas M/s. Telco Ltd. (Now Tata Motors Ltd.) Jamshedpur, code No. BR/05 have applied for exemption under Sub-Section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act:

AND WHEREAS, I, Central Provident Fund Commissioner is satisfied that the employees of the said establishment is, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance scheme of the establishment in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule annexed hereto, I, Central Provident Fund Commissioner hereby exempt the above said establishment with retrospective effect from which date relaxation order under Para 28(7) of the said Scheme has been granted by the Regional Provident Fund Commissioner, Patna from the operation of the said Scheme for and upto a period of 3 years from 01-03-2002 to 28-02-2005.

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Life Cover Scheme including maintenance of accounts, submission of returns, inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, copy of the rules of the Life Cover Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Providents Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Life Cover Scheme.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employers under the Life Cover Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said scheme are enhanced so that the benefits available under the Life Cover Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Life Cover Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the scheme less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Life Cover Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Life Cover Scheme of the said establishment as already adopted by the said establishment or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. The responsibility for payment of assurance benefits to the nominee (s) legal heir (s) of deceased member who would have been covered under said Scheme but for grant of this exemption shall be that of the employer.

11. Upon the death of the member covered under the Life Cover Scheme the employer in relation to said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee (s) Legal heir (s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

S. R. JOSHI

Regional Provident Fund Commissioner